



बहुउपयोगी फायदे

- ✓ सीमेंट कांक्रीट के मिश्रण को त्वरित समरूप करते हुए कांक्रीट के घटकों को पुनः विभक्त नहीं होने देता है।
- ✓ सीमेंट में पानी मिलावे पर डल्ले नहीं बनते, एक जैसा घोल तैयार होकर ठोस धरातल बनाता है। फलस्वरूप कांक्रीट की ताकत में वृद्धि होती है।
- ✓ सीमेंट की स्लम्प बनाने की प्रक्रिया को शिथिल कर आरंभिक सीमेंट सेटिंग के समय को बढ़ाता है।
- ✓ पानी की मात्रा को बिना बढ़ाये कांक्रीट की कार्य क्षमता एवं फिनिशिंग में वृद्धि करता है।
- ✓ सीमेंट की ग्रीन स्टेबिलिटी बढ जाने से पानी कम लगता है एवं निर्माण अधिक टिकाऊ होता है।
- ✓ मानव स्वास्थ्य के लिये सुरक्षित, हानिरहित, प्रदूषण रहित है एवं अल्गी, फंगस व अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं का अवरोधी है।
- ✓ कांक्रीट में सिकुड़न नहीं होने से महिन तिराट पैदा नहीं होती, फलस्वरूप कांक्रीट में पानी का रिसाव रुक जाता है।
- ✓ कांक्रीट को अधिक ठण्ड के अंतर से बचाता है एवं अंदर से फूलकर धक्का नहीं बनने देता है।
- ✓ कांक्रीट में सामान्य सांस लेने की क्रिया को बनाये रखते हुए दीवारों पर पानी के धब्बे नहीं होने देता है।
- ✓ क्लोराइड की नगण्यता के कारण कांक्रीट में प्रयुक्त लोहा अधिक समय तक टिकाऊ बना रहता है।
- ✓ कांक्रीट में कम समय में अधिक ताकत आ जाने से लगाये गये फर्शों एवं तराफों को भी जल्दी निकाला जा सकता है, अतः निर्माण कार्य अधिक गति से किया जा सकता है।

CAM-99 एक त्रिआयामी अर्द्धशूल सीमेंट मिश्रण है। यह सीमेंट कांक्रीट के घटकों के घोल एवं सीमेंट पलस्टर के घोल को लचीला बनाते हुए ठोस धरातल का निर्माण करता है। वर्षों तक अल्गी, फंगस, सूक्ष्म जीवाणुओं की उत्पत्ती को रोकते हुए काले धब्बों से छतों एवं दीवारों को बचाये रखता है। यह कांक्रीट एवं दीवारों में सूझन बरतने से रोकता है, जिससे वाटर लीकेज की समस्या उत्पन्न ही नहीं होती है। यह वाटर रिड्यूसर के अलावा एक अच्छा प्लास्टरसाइजर भी है जो प्रीकास्ट कांक्रीट एलिमेंट्स टाइल्स आदि में अत्यंत उपयोगी है। इसके उपयोग से सीमेंट, पानी एवं इम की बचत होती है। फलस्वरूप निर्माण कार्य की लागत में कमी आती है। कांक्रीट के भीतर प्रयुक्त लोहा (सरिया) जंग नहीं खाता और सदैव मजबूत बना रहता है जिससे निर्माण की आयु में वृद्धि होती है।

उपयोग के क्षेत्र

निर्माण कार्य व भवनों में प्रयुक्त सीमेंट, कांक्रीट तथा प्लास्टर के कार्यों के लिये यह अत्याधिक शक्तिशाली सीमेंट मिश्रण है। जैसे बीच, बीम, कॉलम, भूमिगत पानी की टंकी, तालघर, शौचालय व बाथरूम, रसोईघर, छत, फर्श, पेरफिट, दीवार, छज्जा, छत की टंकी, बाँध, पूल, सुरंग, बहरे, बंदरगाह, हाईवे, स्विमिंग पूल, यूनिम जलाशयों व फव्वारों के निर्माण एवं मरम्मत के लिये।

उपयोग की विधि

अच्छे प्लास्टरिंग या कांक्रीट मोर्टार हेतु सीमेंट, रेत, गिट्टी को आवश्यकतानुसार अच्छी तरह मिलाकर प्रयोग करें। तत्पश्चात् प्रत्येक 50 किलो सीमेंट की बोरी के लिए CAM-99, 100 मि.ली. के अनुपात में विघटित पानी में मिलाकर कांक्रीट का घोल तैयार करें। कांक्रीट/प्लास्टर जम जाने पर प्रचलित तरीके से पानी द्वारा तराई करें।

उपलब्ध पैकिंग :


100 मि.ली., 500 मि.ली., 1 ली., 3 ली., 5 ली., 10 ली., 20 ली., 30 ली., 220 ली.

केमिकल परीक्षण

घटक	ISI 2645 मानक अनुसार	CAM-99 में
कुल क्लोराइड	0.05% अधिकतम	0.038%
कुल सल्फेट (So3)	0.05% अधिकतम	0.038%

भौतिक परीक्षण (एन. 150 कांक्रीट में 43 नेट सीमेंट के साथ) :-

दिन	ISI 2645 हेतु बाध्यक	CAM-99 रहित	CAM-99 2 मि.ली./किलो सीमेंट
3 दिन		134.4 mpa	152.5 mpa
7 दिन		155.5 mpa	170.7 mpa
28 दिन	150 किलो	229.6 mpa	261.3 mpa
सम्य		20 mm	35 mm.



उपयोग के क्षेत्र ...

सावधानी : त्वचा एवं आँखों के संपर्क में आने से बचावें। यदि संपर्क हो जाये तो उसे तुरंत पानी से धो लें। कभी भी इसे सीमेंट में सीधे न मिलावें। इस्तेमाल के पहले अच्छी तरह से हिलावें। उत्पाद को उसकी मूल अवस्था में ठंडे व सूखे स्थान में रखें।
नोट : यह जानकारी जनहित में दी गई है। परन्तु अनजाने में कोई बर्तन होना है या विधिअनुसार उपयोग नहीं किया जाता है तो कंपनी की कोई जवाबदारी नहीं रहेगी।